



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

15 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 301 राँची, शुक्रवार,

5 अप्रैल, 2019 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----  
संकल्प

04 अप्रैल, 2019

**संख्या-5/आरोप-1-130/2018-1616 (HRMS)--** चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-832/03, गृह जिला-लोहरदगा), के अंचल अधिकारी, सोनाहातु, राँची के पद पर कार्यावधि में श्रीमती दुरो देवी, पति-श्री रमेश चन्द्र महतो के पक्ष में विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करने, आवेदिका तथा उनके पति के नाम से पूर्व से ही जमीन की जमाबंदी होने के बावजूद तथ्य छुपाकर भूमिहीन रैयत बताने एवं आवेदिका के पति की आय के अन्य स्रोत को छुपाकर भूमि की बंदोबस्ती की अनुशंसा करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, राँची के पत्रांक-05(i)/स्था०, दिनांक 05.02.2019 द्वारा संलग्न प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र- ‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

| Sr No. | Employee Name<br>G.P.F. No. | Decision of the Competent authority   |
|--------|-----------------------------|---|
| 1      | 2                           | 3   |
| 1      | ALOK KUMAR<br>JHK/JAS/06    | श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-832/03, गृह जिला-लोहरदगा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सोनाहातु, राँची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972.

-----